### JINDAL PHOTO LIMITED

Ref: JPL/Sectt./Sept-21/585

September 8, 2021

The Listing Department
National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, 5th Floor, Plot No. C-1
Block – G, Bandra-Kurla Complex
Bandra (East), Mumbai –400051.
NSE Scrip Code: JINDALPHOT

The Deptt of Corporate Services
The BSE Ltd.
25, PJ Towers, Dalal Street
Mumbai – 400001.
BSE Scrip Code:532624

Re: Disclosures under Regulation 30 & 47 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015

Dear Sirs,

Pursuant to the provisions of Regulation 30 & 47 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015 we are submitting herewith copy of Notice published on 7<sup>th</sup> September, 2021 in the Financial Express (English), all editions and Jansatta (Hindi) Delhi Edition interalia stating that;

- 1. The 18<sup>th</sup> Annual General Meeting ("AGM") of Jindal Photo Limited ("the Company") will be held on Wednesday, 29<sup>th</sup> September, 2021 at 12:30 P.M.to transact the business as set out in the Notice of AGM through video conferencing (VC)/ other audio visual means (OAVM) in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the rules made thereunder, read with Ministry of Corporate Affairs (MCA) circulars issued in this regard from time to time.
- Confirmation of completion of dispatch of 18<sup>th</sup> Annual Report of the Company to the shareholders through e-mail only.
- 3. Details of Remote e-voting for the 18th AGM.
- 4. Notice of Book Closure pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013.

The copy of abovesaid Newspaper Advertisements are also available on website of the Company http://www.jindalphoto.com.

This is for your kind information and records.

Yours truly,

For Jindal Photo Limited

(Ashok Yadav) Company Secretary

Encl: as above



Date: 03-09-2021, Place: Faridabad

**FINANCIAL EXPRESS** 

Branch Office -Railway Road, Old Faridabad (3179) bo3179@pnb.co.in

Booking

0120 - 66512

(Rule 8(1)) POSSESSION NOTICE (for immovable property) Whereas the undersigned being the Authorized Officer of Punjab National Bank under the Securitization and Reconstruction of

Financial Assets and Enforcement of Security Act, 2002 and in exercise of the powers conferred under section 13 (12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) rules 2002, issued a demand notice on below mentioned dates, calling upon the below mentioned borrowers to repay the amount mentioned in the notice within 60 days from the date of receipt of the said notice. The Borrower having failed to repay the amount, Notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned

has taken symbolic possession of the properties described herein below in exercise of powers conferred on him/her under section 13(4) of the said Act read with Rule 8 of the said rules on below mentioned dates.

The Borrower in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the properties and the dealing with the properties will be subject to the charge of Punjab National Bank for an amount mentioned in the notice.

The borrower's/ guarantor's attention is invited to provisions of sub – section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to **DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTIES** 

Demand Notice Date

and further interest

expenses, other

charges etc. thereon

Sr. No.	Name of Account (Borrowers)	Possession Notice Amount Outstanding	DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY
1	Mrs. Meenakshi Arora w/o Mr. Sanjay Arora & Mr. Sanjay Arora S/o Mr. Madan Lai Arora (Loan a/c no. 317900NC04004960)	28-04-2021 03-09-2021	All that part and parcel of the property consisting Property Bearing House Property situated at House No.JR/V/22, Ground Floor, VIP Floor, Lane Jarul, Sector-81, Faridabad-121004 measuring super area 1350 sq ft vide Sale Deed No. 8590 dated 9.2.2018 at Sub Registrar Faridabad owned by Mrs. Meenakshi Arora w/o Mr. Sanjay Arora.
		Rs. 27,61,865.02 as on 31-08-2021 and further interest, expenses, other charges etc. thereon	
2	Mr. Varun Bhardwaj (Loan account no. 317900IC04003212)	13-11-2019	All that part and parcel of the property consisting Property Bearing House No. 1496, Sector-16, Faridabad, Measuring area 250 sq yards in the name of Mrs.Uma Sharma w/o Mr. R.C. Sharma. Conveyance
		03-09-2021	
		Rs. 4,36,683.50 as on 31-08-2021	

Authorised Officer, Punjab National Bank

Deed registeration no. 3977 dated 13.7.2000.

#### Shakumbhri Pulp & Paper Mills Limited CIN: L21012UP1986PLC007671 Regd. Off. 4.5 KM, Bhopa Road, Muzaffarnagar, Uttar Pradesh- 251001

Website: www.shakumbhripulp.com | Email: shakumbhripaper@gmail.com NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING BOOK CLOSURE AND E-VOTING INFORMATION

NOTICE is hereby given that the 33<sup>rd</sup> Annual General meeting of Shareholders of the Company will be held on Thursday, 30" September, 2021 at 01:30 P.M through Video Conferencing /Other Audio Visual Means ("VC/OAVM"). In compliance with General Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020, Circular No.17/2020 dated April 13, 2020, Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020 and Circular No. 02/2021 dated 13" January 2021 issued by Ministry of Corporate Affairs and SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12th May, 2020 and SEBI/HO/CFD/CMD 2/CIR/P/2021/11 issued by the Securities and Exchange Board of India, companies are allowed to hold AGM through Video Conferencing, without the physical presence of members at a common venue. Hence the AGM of the company is being held through VC to transact the business set out in the Notice which has already been sent to the shareholders individually through e-mail if his/her e-mail address is registered with the Depository / Registrar & Transfer Agent. In accordance with the Circulars issued by MCA and SEBI, the requirement of dispatching of physical copies of Notice of AGM has been dispensed off The Notice of 33" AGM is also available on the Company's website www.shakumbhripulp.com,on the website of Stock Exchange <a href="www.msei.in">www.msei.in</a> and on the website of <a href="www.evotingindia.com">www.evotingindia.com</a>. The dispatch of Notice of AGM through emails has been completed on 4" September, 2021.

The Company is providing its member the facility to exercise their right to vote by electronic means and the business may transact through e-voting Services provided by Central Depository Services Limited (CDSL). E-Voting facility will be available at the link www.evotingindia.com. The e voting period commences on Monday, 27th Sept, 2021 at 10:00 A.M. & end on Wednesday, 29th Sept, 2021 at 5:00 P.M. Once the vote on a resolution is cast by the shareholder, it shall not be allowed to change subsequently. The Cut-off date for the purpose of e voting shall be Thursday, 23" September, 2021. For electronic voting instructions, Shareholders may go through the instructions in the Notice of AGM of the Company.

Person who acquire shares and become member of the company after the dispatch of notice and who are eligible shareholders as on cut-off date i.e. Thursday, 23th Sept, 2021 may contact Mr. Ravi on (011-40450193) or investors@skylinerta.com to obtain the login id and password.

Remote e-voting through electronic means shall not be allowed beyond 5.00 P.M. of 29th Sept. 2021. A member may participate in the general meeting even after exercising her/his right to vote through remote e voting, but shall not be allowed to vote again in the meeting. Facility for voting will also be made available during the AGM and those present in the AGM through VC facility, who have not cast their vote through Remote e-voting shall be eligible to vote through the e-voting system at the AGM. A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall entitled to avail the facility of remote e-voting.

The manner of Remote e-voting and in the AGM for Members holding shares in physical mode or in dematerialized mode and for members who have not updated their email addresses with the Company, is provided in the Notice of the AGM.

In case of any queries/grievances pertaining to attending AGM and e-voting, you may contact Mr. Ravi, Skyline Financials Services Ltd. at <a href="mailto:investors@skylinerta.com">investors@skylinerta.com</a> or Mr. Rakesh Dalvi, Sr. Manager, (CDSL, ) Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013 or send an email to helpdesk evoting@cdslindia.com or call Notice pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and Rule 10 of the Companies (Management and

Administration) Rules, 2014 read with regulation 42 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 is also hereby given that the Register of Members & Share Transfer Books of the Company will remain closed from Thursday, 23<sup>to</sup> Sept, 2021 to Thursday 30th Sept, 2021 (Both days inclusive) for 33th Annual General meeting of Company.

By Order of the Board FOR SHAKUMBHRI PULP & PAPER MILLS LIMITED

Date: 31.08.2021 Place: Muzaffarnagar

**Place:** Ahmedabad

**Date**: 6<sup>th</sup> September, 2021

(Ayushi Gupta) Company Secretary

### **S** suvidhaa

### **SUVIDHAA INFOSERVE LIMITED** (CIN: L72900GJ2007PLC109642)

Registered Office: Unit No. 02, 28th floor GIFT - II Building, Block No. 56, Road 5C, Zone 5, GIFT City, Gandhinagar - 382355, Gujarat

Corporate Office: 14, Olympus Industrial Estate, Off. Mahakali Caves Road, Andheri (East),

Mumbai-400093 Tel.: +91 9223225225 E-mail: cs@suvidhaa.com Website: www.suvidhaa.com

# NOTICE OF THE 14TH ANNUAL GENERAL MEETING,

### **BOOK CLOSURE DATES AND E-VOTING INFORMATION**

NOTICE is hereby given that the 14th Annual General Meeting ("AGM") of the members of Suvidhaa Infoserve Limited ("the Company") will be held on Tuesday, 28th September, 2021 at 11.00 a.m. IST through video conferencing ("VC") or Other Audio Video Means ("OAVM") to transact the businesses as set out in the Notice of the AGM. The Company has dispatched the Annual Report for the Financial Year 2020-21 along with the Notice convening AGM through electronic mode on Monday, 6th September, 2021 only to the members whose e-mail addresses are registered with the Company and/or Depositories and/or RTA in compliance with General Circular No. 20/2020 dated 5<sup>th</sup> May, 2020 read with General Circular Nos: 14/2020, 17/2020 and 02/2021 dated 8th April, 2020, 13th April, 2020 and 13th January, 2021, respectively issued by the Ministry of Corporate Affairs ('MCA Circulars') and Circular Nos. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 and SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated 12th May, 2020 and 15th January, 2021, respectively issued by the Securities and Exchange Board of India ('SEBI Circulars').

The Annual Report for the Financial Year 2020-21 along with the Notice convening the AGM is also available on the website of the Company at www.suvidhaa.com, websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and on the e-voting website of National Securities Depository Limited (NSDL) at www.evoting.nsdl.com.

Notice is hereby given that pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 ("Act") read with applicable rules made thereunder and Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations"), the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from Wednesday, 22<sup>nd</sup> September, 2021 to Tuesday, 28th September, 2021 (both day inclusive), for the purpose of 14th AGM of the Company. In compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time, Regulation 44 of the SEBI Listing Regulations, the Company is providing to its Members the facility of remote e-voting before/during the AGM in respect of the business to be transacted at the AGM and for this purpose, the Company has appointed NSDL for facilitating voting through electronic means. The detailed instructions for remote e-voting are given in the Notice of the 14th AGM. Members

are requested to note the following: a. The Remote E-Voting facility would be available during the following period:

Commencement of remote e-voting	Friday, 24th September, 2021 (10:00 a.m. IST)
Conclusion of remote e-voting	Monday, 27 <sup>th</sup> September, 2021 (5:00 p.m. IST)

The remote e-voting module will be disabled by NSDL for voting thereafter and Members will not be allowed to vote electronically beyond the said date and time.

b. The voting rights of the Members shall be in proportion to their share of the paid-up equity share capital of the Company as on Tuesday, 21st September, 2021 ("cut-off date"). E-voting facility will be available during AGM. Members, who have already cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may remain present at the AGM through VC/OAVM but shall not be entitled to cast their vote again during AGM.

c. Those persons who have acquired shares and have become members of the Company after e-mailing of the Notice of the AGM by the Company and whose names appear in the Register of Members of the Company/ in the statement of beneficial owners maintained by the depositories as on cut-off date can exercise their voting rights through e-voting by following the procedure as maintained in the said Notice of AGM.

d. In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800 1020 990 and 1800 22 44 30 or send a request to Ms. Sarita Mote at evoting@nsdl.co.in

For, Suvidhaa Infoserve Limited

Prachi Jain

CIN: L74999DL1992PLC048032; Phone No: 011-28762142 e-mail address: capfinindialtd@yahoo.co.in; Website: www.capfinindia.com INTIMATION REGARDING COMPLETION OF DISPATCH OF NOTICE OF 29™ ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND E-VOTING

Notice is hereby given that the 29\* Annual General Meeting ("AGM") of the Members of Capfir India Limited will be held on Thursday, September 30, 2021 at 5:00 p.m. through Video Conferencing ("VC") or Other Audio Visual Means ("OAVM") to transact the ordinary and special businesses as stated in the Notice convening the AGM. As per the various Circular issued by MCA and SEBI, the Notice of the AGM together with the Annual Report of the Company for the Financial Year 2020-21 has been sent to the Members of the Company by e-mail to their registered e-mail addresses. The Company has completed the mailing of Notice convening the AGM along with the aforesaid Annual Report on September 6, 2021.

The Members, who have not registered their e-mail addresses so far, are requested to register their e-mail addresses with their concerned Depository Participant (in respect of shares held in demat form) or with Indus Portfolio Private Limited, Registrar & Share Transfer Agent (RTA) of the Company (in respect of shares held in physical form),

Members are hereby informed that the notice of the 29" AGM and the Annual Report of the Company are also available on the Company's website (www.capfinindia.com). Notice of AGM is also available on the e-voting website of National Securities Depository Limited (NSDL) at Members are also informed that pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013("the Act")

read with the relevant rules made thereunder, as amended from time to time, along with Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations") and the aforesaid Circulars, the Company is providing remote e-voting (prior to the AGM) and e-voting during AGM to its members to cast their votes electronically or the resolutions to be passed at the 29" AGM. The Members are further informed that the cut-off date for the purpose of ascertaining the members eligible for e-voting facility has been fixed as Thursday, September 23, 2021. A person, whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as e-voting during AGM.

The Members are requested to note that remote e-voting process shall commence on Monday September 27, 2021 at 9:00 a.m. and will remain open upto Wednesday, September 29, 2021 til 5:00 p.m. Thereafter, the remote e-voting module shall be disabled by NSDL Once the vote on a resolution is cast by a Member, he / she / it shall not be allowed to change it subsequently. The Members who have not cast their vote through remote e-voting can exercise their voting rights electronically during AGM. The Members who have cast their votes by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM, but shall not be entitled to cast their vote again during AGM The Company has appointed Mr. Deepanshu Bansal (Membership No. 526717, Practicing Chartered Accountant, as the scrutinizer to scrutinize the e-voting process in a fair and transparent

The detailed procedure/instructions for remote e-voting, attending AGM and e-voting during

Shareholders and e-voting user manual for Shareholders, available at the download section of www.eyoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800 1020 990 and 1800 22 44 30 or send a request Any query or grievance in relation to e-voting may be addressed to Ms. Swapnil Agarwal Compliance Officer, e-mail address: info@nivis.co.in, Address: 3 Shankar Vihar, 2" Floor, Vikas Marg, Delhi 110092, Contact No.: 011-45201005.

Any person who becomes a Member after sending the Notice and Annual Report through e-mail but who holds shares as on cut-off date can attend the AGM through VC / OAVM. Such Member can exercise his voting right through remote e-voting or e-voting during AGM and send a requisition for a copy of the Annual Report and Notice convening the AGM through e-mail communication to RTA at ippl@indusinvest.com with a copy marked to the Company a capfinindialtd@yahoo.co.in, along with his / her / its relevant particulars i.e. DP ID & Client ID Folio No. to obtain User Id and Password for e-voting. If shareholder is individual shareholder and

Since the 29th AGM will be held pursuant to the aforesaid Circulars through VC / OAVM, physical

attendance of Members has been dispensed with. Accordingly, the facility for appointment o proxies by the Members will not be available Notice is also hereby given that pursuant to the provisions of Section 91 of the Act and Regulation 42 of the Listing Regulations, the Register of Members and the Share Transfer Books of the

hold shares in demat mode he/she can generate password as explain in e-voting instruction.

Date: September 7, 2021

(Rachita Mantry Kabra) Whole Time Director DIN: 03414391

#### AGARWAL DUPLEX BOARD MILLS LIMITED (CIN: L99999DL1984PLC019052)

Regd. Office: 217, Aggarwal Prestige Mall, Plot No. 2, Community Center,

Along Road No. 44, Pitampura, New Delhi - 110034 Website: www.agarwalduplex.net; Tel.: +91 11 47527700, Fax: +91 11 47527777 NOTICE OF 37<sup>™</sup> ANNUAL GENERAL MEETING WITH BOOK CLOSURE AND E- VOTING INFORMATION

NOTICE is hereby given that the 37th Annual General meeting of Shareholders of the Company will be held on

Thursday, 30" September, 2021 at 11:30 A.M. through Video Conferencing /Other Audio Visual Means ("VC/OAVM"). In compliance with General Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020, Circular No.17/2020 dated April 13, 2020 and Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020 issued by Ministry of Corporate Affairs and SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12th May, 2020, further extension with MCA General Circular No. 02/2021 dated 13th January 2021 and SEBI/HO/CFD/CMD 2/CIR/P/2021/11 issued by the Securities and Exchange Board of India, companies are allowed to hold AGM through Video Conferencing, without the physical presence of members at a common venue. Hence the AGM of the company is being held through VC to transact the business set out in the Notice which has already been sent to the shareholders individually through e-mail if his/her e-mail address is registered with the Depository Registrar & Transfer Agent. In accordance with the Circulars issued by MCA and SEBI, the requirement of dispatching of physical copies of Notice of AGM has been dispensed off. The Notice of 37"AGM is also available on the Company's website <u>www.agarwalduplex.net.</u>on the website of Stock Exchange <u>www.msei.in</u>and on the website of <u>www.evotingindia.com</u>. The dispatch of Notice of AGM through emails has been completed on 4<sup>th</sup> September, 2020.

The Company is providing its member the facility to exercise their right to vote by electronic means and the business may transact through e-voting Services provided by Central Depository Services Limited (CDSL). E-Voting facility will be available at the link <a href="https://www.evotingindia.com">www.evotingindia.com</a>. The e voting period commences on Monday, 27"Sept, 2021 at 10:00 A.M. & end on Wednesday, 29" Sept, 2021 at 5:00 P.M. Once the vote on a resolution is cast by the shareholder, it shall not be allowed to change subsequently. The Cut-off date for the purpose of e voting shall be Thursday, 23<sup>rd</sup>September, 2021. For electronic voting instructions, Shareholders may go through the instructions in the Notice of AGM of the Company.

Person who acquire shares and become member of the company after the dispatch of notice and who are eligible shareholders as on cut-off date i.e. Thursday, 23<sup>™</sup>September, 2021 may contact Mr. Puneet Mittal on (011-29961281) or beetalrta@gmail.com to obtain the login id and password.

Remote e-voting through electronic means shall not be allowed beyond 5.00 P.M. of 29" Sept, 2021. A member may participate in the general meeting even after exercising her/his right to vote through remote e voting, but shall not be allowed to vote again in the meeting. Facility for voting will also be made available during the AGM and those present in the AGM through VC facility, who have not cast their vote through Remote e-voting shall be eligible to vote through the e-voting system at the AGM. A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall entitled to avail the facility of remote e-voting.

The manner of Remote e-voting and in the AGM for Members holding shares in physical mode or in dematerialized mode and for members who have not updated their email addresses with the Company, is provided in the Notice of the AGM.

In case of any queries/grievances pertaining to e-voting, you may contact Mr. Puneet Mittal General Manager, Beetal Financial & Computer Services Pvt. Ltd. at beetalrta@gmail.com Telephone Nos. 011 29961281 or contact Mr. Nitin Kunder (022-23058738) or Mr. Mehboob Lakhani (022-23058543) or Mr. Rakesh Dalvi (022-23058542) or refer to frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting manual available at www.evotingindia.com.

Notice pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 read with regulation 42 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 is also hereby given that the Register of Members & Share Transfer Books of the Company will remain closed from Friday, 24"Sept, 2021 to Thursday 30" Sept, 2021 (Both days inclusive) for 37" Annual General meeting of Company.

> By Order of the Board FOR AGARWAL DUPLEX BOARD MILLS LIMITED

Date: 05.09.2021 Place: Delhi

(Sarika Aggarwal) Company Secretary

#### NEERAJ PAPER MARKETING LIMITED (CIN: L74899DL1995PLC066194)

Regd. Office: 218 - 222, Aggarwal Prestige Mall, Plot No.2, Community Center, Along Road No. 44, Pitampura, New Delhi – 110034 Website: www.neerajpaper.com | Tel.: +91 11 47527700 | Fax: +91 11 47527777 NOTICE OF 26'" ANNUAL GENERAL MEETING WITH BOOK CLOSURE AND E- VOTING INFORMATION

NOTICE is hereby given that the 26" Annual General Meeting of Shareholders of the Company will be held on Wednesday, 29" September, 2021 at 11:30 A.M. through Video Conferencing /Other Audio Visual Means ("VC/OAVM"). In compliance with General Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020, Circular No.17/2020 dated April 13, 2020 and Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020 issued by Ministry of Corporate Affairs and SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12th May, 2020, further extension with MCA General Circular No. 02/2021 dated 13th January 2021 and SEBI/HO/CFD/CMD 2/CIR/P/2021/11 issued by the Securities and Exchange Board of India, companies are allowed to hold AGM through Video Conferencing, without the physical presence of members at a common venue. Hence the AGM of the company is being held through VC to transact the business set out in the Notice which has already been sent to the shareholders individually through e-mail if his/her e-mail address is registered with the Depository Registrar & Transfer Agent. In accordance with the Circulars issued by MCA and SEBI, the requirement of dispatching of physical copies of Notice of AGM has been dispensed off. The Notice of 26"AGM is also available on the Company's website <u>www.neerajpaper.com</u>, on the website of Stock Exchange www.bseindia.com and on the website of www.evotingindia.com. The dispatch of Notice of AGM through emails has been completed on 4" September, 2020.

The Company is providing its member the facility to exercise their right to vote by electronic means and the business may transact through e-voting Services provided by Central Depository Services Limited (CDSL). E-Voting facility will be available at the link www.evotingindia.com. The e voting period commences on Sunday, 26"Sept, 2021 at 10:00 A.M. & end on Tuesday, 28" Sept, 2021 at 5:00 P.M. Once the vote on a resolution is cast by the shareholder, it shall not be allowed to change subsequently. The Cut-off date for the purpose of e voting shall be Wednesday, 22<sup>rd</sup>September, 2021. For electronic voting instructions, Shareholders may go through the instructions in the Notice of AGM of the Company.

Person who acquire shares and become member of the company after the dispatch of notice and who are eligible shareholders as on cut-off date i.e. Wednesday 22<sup>rd</sup> September, 2021 may contact Mr. Puneet Mittal on (011-29961281) or beetairta@gmail.com to obtain the login id and password. Remote e-voting through electronic means shall not be allowed beyond 5.00 P.M. of 28<sup>th</sup> Sept, 2021. A

member may participate in the general meeting even after exercising her/his right to vote through remote e voting, but shall not be allowed to vote again in the meeting. Facility for voting will also be made available during the AGM and those present in the AGM through VC facility, who have not cast their vote through Remote e-voting shall be eligible to vote through the e-voting system at the AGM. A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall entitled to avail the facility of remote e voting. The manner of Remote e-voting and in the AGM for Members holding shares in physical mode or in

dematerialized mode and for members who have not updated their email addresses with the Company, is provided in the Notice of the AGM In case of any queries/grievances pertaining to e-voting, you may contact Mr. Puneet Mittal General

Manager, Beetal Financial & Computer Services Pvt. Ltd. at <a href="mailto:beetalrta@gmail.com">beetalrta@gmail.com</a> Telephone Nos. 011 29961281 or contact Mr. Nitin Kunder (022-23058738) or Mr. Mehboob Lakhani (022-23058543) or Mr. Rakesh Dalvi (022-23058542) or refer to frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting manual available at www.evotingindia.com Notice pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and Rule 10 of the Companies (Management and

Administration) Rules, 2014 read with regulation 42 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 is also hereby given that the Register of Members & Share Transfer Books of the Company will remain closed from Thursday, 23™ Sept, 2021 to Wednesday 29th Sept, 2021 (Both days inclusive) for 26th Annual General meeting of Company. By Order of the Board

> Sd/ (Mansi) Company Secretary

FOR NEERAJ PAPER MARKETING LIMITED

### SHASHANK TRADERS LIMITED

CIN: - L52110DL1985PLC021076

Regd. Office: 702-A, Arunachal Building, 19, Barakhamba Road, Connaught Place, New Delhi-110001, Tele. No.:- 011- 43571041/42, Fax: - 011- 43571047 Email Id: info@shashankinfo.in; Website: www.shashankinfo.in

Notice is hereby given that the 36th Annual General Meeting ("AGM") of the Company is scheduled to be held on Thursday, September 30, 2021 at 10:30 a.m. at the registered office of the Company at 702-A, Arunachal Building, 19, Barakhamba Road, Connaught Place, New Delhi-110001. Members of the Company are hereby informed that pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 and Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the Company has on September 07, 2021 completed the dispatch of the notice of the Annual General Meeting by providing the facility of electronic voting to its members for seeking consent of Members for the items as stated in the notice of the Annual General Meeting dated September 02, 2021, for members meeting to be held on September 30, 2021 at 10:30 a.m.

- . The Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from September 24, 2021 to September 30, 2021 (both days inclusive) for the purpose of this Annual General Meeting. . Members can vote through electronic means. The Voting will commence on
- September 27, 2021 at 9.00 a.m. and ends on September 29, 2021 at 5.00 p.m. Members attending the meeting who have not already cast their vote by remote e voting shall be able to exercise their right at the Annual General Meeting by poll. . The members who have acquired the shares after the dispatch of the Notice shall be
- eligible for voting through electronic mode by obtaining login Id and password after logging on www.evotingindia.com. The notice is also available on the website of the Company at www.shashankinfo.in
- . The remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time as mentioned above in point 2.
- A member may participate in the general meeting even after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again in the meeting.
- . Members whose name is recorded in the Register of Members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date (i.e. September 23, 2021) only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting in the Annual General Meeting.

. The Notice of Annual General Meeting will be available on www.shashankinfo.in and

on the portal of the exchange where the securities are listed. If any members require physical copy of the notice can send a requisition on the registered office address of the Company situated 702-A, Arunachal Building, 19, Barakhamba Road, Connaught Place, New Delhi-110001. Mr. Nipun Jain, Director and Compliance officer of the Company is responsible to

address the grievances connected with facility for voting by electronic means and all the correspondence to that effect shall be addressed at registered office address: 702 -A, Arunachal Building, 19, Barakhamba Road, Connaught Place, New Delhi-110001. e-mail: info@shashankinfo.in contact no: 011-43571041/42.

For and on behalf of Board of Directors of Shahank Traders Limited

Nipun Jain

DIN:- 05289775

Director

Date:-September 07, 2021 Place:- New Delhi

SALORA

# SALORA INTERNATIONAL LIMITED

Regd. Office: D-13/4, Okhla Industrial Area, Phase-II, New Delhi-110020 CIN - L74899DL1968PLC004962, Website: www.salora.com, Email: sect@salora.com,

Telephone: 011-40115817 NOTICE OF 52<sup>™</sup> ANNUAL GENERAL MEETING,

# E-VOTING AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that 52<sup>™</sup> Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company will be held on Wednesday, 29th September, 2021 at 11:00 A.M. through Video Conferencing / Other Audio Visual Means (VC/OAVM) without physical in the Notice of AGM. The Company's 52<sup>™</sup> Annual Report along with Notice convening AGM, have been sent through Electronic Mode on 6" September, 2021 to all the members whose email IDs are registered with the RTA/ Company/Depositories in accordance with the Circulars issued by The Ministry of Corporate Affairs i.e Circular No.14/2020 dated April 08, 2020, Circular No.17/2020 dated April 13, 2020 followed by Circular No.20/2020 dated May 05, 2020 and Circular No.02/2021 dated January 13, 2021 and all other relevant circulars issued from time to time and circulars issued by the Securities Exchange Board of India. The Notice of 52" AGM and Annual Report for F.Y. 2020-21 is also available on the company's website at www.salora.com and on the website of NSDL i.e. www.evoting.nsdl.com. Pursuant to the provision of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule

20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended up

to date and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements)

Regulations, 2015, the Company is pleased to provide to Members the facility to cast

their vote by electronic means on all the resolutions set forth in the Notice convening

the AGM using electronic system (remote e-voting as well as e-voting on the day of AGM) provided by NSDL. Members, whose names are recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the cut-off date i.e. Wednesday 22" September, 2021 shall be entitled to avail The remote e-voting period will commence on Sunday 26" September, 2021 (9.00 A.M.) and ends on Tuesday 28" September, 2021 (5.00 P.M.). During this period members may cast their votes electronically. The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. Facility of e-voting shall also be made

available at the AGM and those members, who had not cast their votes on the Resolutions through remote e-voting shall be eligible to vote through e-voting Pursuant to provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and Share Transfer Books will remain close from 23"

September, 2021 to 29" September, 2021 (both days inclusive) for the purpose of 52"

Annual General Meeting of the Company. The instructions for members for remote e-voting and joining annual general meeting are provided in the Notice of AGM available at website of the company www.salora.com. Any person, who acquires shares of the Company and becomes a shareholder of the Company after the Notice has been sent electronically by the Company and holds shares as on the cut-off date; may obtain log-in ID and password by sending a request to evoting@nsdl.co.in. However, if he / she is already registered with NSDL for remote e-voting, then he / she can use his / her existing user ID and

In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-Voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800 1020 990 and 1800 22 44 30 or send a request at evoting@nsdl.co.in or contact Ms. Pallavi Mhatre, Manage or Ms. Soni Singh, Asst. Manager, National Securities Depository Limited at the designated email id evoting@nsdl.co.in or pallavid@nsdl.co.in or SoniS@nsdl.co.ir or at telephone nos.:- +91 22 24994545, +91 22 24994559, who will also address the grievances connected with voting by electronic means

For Salora International Ltd

(Anubhav Nigam) Company Secretary & Compliance Officer

Mem. No. A59262

### JINDAL PHOTO LIMITED

Date: September 06, 2021

Place: New Delhi

Regd, Off.: 19" K.M., Hapur-Bulandshahr Road, P.O. Gulaothi, Dist Bulandshahr (U.P.) - 203408 Head Office: Plot No. 12, Sector B-1, Local Shopping Complex, Vasant Kunj, New Delhi- 110070 Tel. No.: 011-40322100, Email: cs\_jphoto@jindalgroup.com, Website: www.jindalphoto.com NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that 18" Annual General Meeting (AGM) of the Members of Jindal Photo Limited ("the Company") will be held on Wednesday, September 29, 2021 at 12:30 p.m. through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") to transact the

The AGM will be held only through VC / OAVM in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 and the rules made there under and in view of General Circular dated January 13, 2021 read with General Circulars dated May 5, 2020, April 8, 2020 and April 13, 2020 and all other relevant circulars issued from time to time (collectively referred to as "MCA Circulars') and SEBI Circular dated May 12, 2020 & January 15, 2021 ('SEBI Circulars'). Facility for appointment of proxy will not be available for the AGM. The instructions for joining the AGM electronically are provided in the Notice of the AGM.

business, as set out in the Notice of the AGM only through e-voting facility.

Notice of the AGM along with the Annual Report 2020-21 is being sent only through electronic mode to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company or CDSL/ NSDL ("Depositories") and will also be available on the Company's websit www.jindalphoto.com and website of the Stock Exchanges i.e. at www.bseindia.com and Members who have not registered their email addresses and in consequence the Annual

Report including Notice of AGM and e-voting instructions could not be serviced, may get their email address and mobile number registered with the Company's Registrar and Share Transfer Agent, Linkintime India Private Limited, by sending an e-mail request at the email id delhi@linkintime.co.in or cs\_jphoto@jindalgroup.com along with scanned copy of the signed copy of the request letter providing the email address, mobile number, self-attested PAN copy and Client Master copy in case of electronic folio and copy of share certificate in case of physical folio for obtaining the Annual Report, Notice of AGM and the e-voting instructions. The Company has engaged the services of Linkintime India Private Limited as the authorized agency for conducting of the AGM electronically and for providing e-voting facility. The remote

e-voting period will commence from Sunday 9.00 a.m. on 26" September, 2021 and end on 5.00 p.m. on Tuesday 28" September, 2021. During this period the eligible shareholders of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, may casted their vote electronically. The remote e-voting module will be disabled by Linkintime India Private Limited for voting thereafter i.e. voting shall not be allowed beyond 5:00 p.m. on September 28, 2021. Facility for e-voting shall also be made available during the AGM to those Members who attend the AGM and who have not already casted their vote through emote e-voting. The Members who have casted their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend/ participate in the AGM through VC / OAVM but shall not be entitled to cast their vote again.

The cut-off date for determining the eligibility of members for voting through remote e-voting and e-voting at the AGM is Wednesday, September 22, 2021. Any person, who becomes a nember of the Company after the dispatch of Notice and holding shares as on cut-off date may obtain the login ID and password by sending a request to enotices@linkintime.co.in or contact on: - Tel: 022 -4918 6000 to cast his/her vote. The detailed procedure for obtaining the login ID and password and exercising e-voting is provided in the Notice of AGM.

In case shareholders/ members have any queries regarding e-voting, they may refer the Frequently Asked Questions ('FAQs') and InstaVote e-Voting manual available at https://instavote.linkintime.co.in, under Help section or send an email to enotices@linkintime.co.in or contact on: - Tel: 022 -4918 6000. Notice is also hereby given pursuant to section 91 of the Companies Act, 2013 read with

applicable Rules and Regulation 42 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Thursday, September 23, 2021 to Wednesday, September 29, 2021, both days inclusive, for the AGM. By Order of the Board of Directors

> For Jindal Photo Limited Ashok Yadav

> > Company Secretary

Place: New Delhi

Date: September 6, 2021

financialexp.epap.in

पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank

**Company Secretary and Compliance Officer** 

Date: 05.09.2021

Place: Delhi

CAPFIN INDIA LIMITED Registered & Corporate Office: 1C/13, Basement, Rajnigandha Building, New Rohtak Road, Delhi - 110005

New Delhi

AGM are contained in the Notice of 29" AGM. The remote e-voting facility is available to the Members to cast their votes at the e-voting website of NSDL: www.evoting.nsdl.com or the Member may refer Frequently Asked Questions (FAQs) fo

Company will remain closed from Friday, September 24, 2021 to Thursday, September 30, 2021 (both days inclusive) for the purpose of 29" AGM.

By order of the Board of Directors For Capfin India Limited

CIN: L74899DL1994PLC350531

Read, Off. 213, ARUNACHAL BUILDING, 19, BARAKHAMBA ROAD, NEW DELHI-110001 Ph.011-23731122, E-mail: compliance@namsecurities.in

NOTICE OF AGM, BOOK CLOSURE AND E-VOTING

Notice is hereby given that 27" Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Thursday, September 30, 2021, at Kiran Farms, W-10D, Western Avenue, Sainik Farms, New Delhi - 110062, to transact the business contained in the Notice of the said AGM. In terms of Sections 101 and 136 of the Companies Ac. 2013 read with Rule 18 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, Notice & Annual Report for the year 2020-21 have been sent through electronic mode by the Company to those shareholders who have registered their email-ids with the Depositories of the company and the same is also made available on the Company's website at www.namsecurities.in.

Notice is also given under Section 91 of the Companies Act, 2013 that Register of Members & Share Transfer Books shall remain closed from 24.09.2021 to 30.09.2021 (both days inclusive) in view of AGM of the Company. Notice is also given that the Company is providing e-voting facility

In terms of section 108 of the Companies Act, 2013 (the "Act") read with rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time and regulation 44 of SEBI(Listing Obligation and Disclosure Requirement) Regulations, 2015, the Company has engaged the services of NSDL as the Authorized agency. The remote E-voting facility shall commence on September 27, 2021 at 10.00 A.M.(IST) and ends on September 29, 2021 at 5.00

The e-voting system shall be disabled thereafter. The Record date forthe purpose of e- voting is September 23, 2021

Members may use e-voting facility during e-voting period by using UserID and Password which will be intimated separately to their registered email ID/Address. For any clarifications on evoting, members may contact RTA, Beetal Financial & Computer Services (P) Ltd at 3" Floor 99Madangir, behind local shopping center, New Delhi-110062 Tel-011-29961281/83.

For: Nam Securities Limited

बोर्ड के आदेशानुसार

Place: New Delhi (Divya Bisht) Date: 06.09.2021 Company Secretary & Compliance Officer



### सदस्यों हेत् सूचना

एतदद्वारा सुचित किया जाता है कि: एस्कॉर्ट्स डीलर्स डेवलपमेंट एसोसिएशन लिमिटेड ('कंपनी') के सदस्यों की 44वीं वार्षिक आम बैठक ('एजीएम') बुधवार, 29 सितंबर, 2021 को अपराह 03:00 बजे आयोजित की जाएगीं। कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुपालन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी') / अन्य ऑडियो विजुअल माध्यम ('ऑएवीएम') के माध्यम से सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांक 08 अप्रैल, 2020, सामान्य परिपत्र संख्या 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020 और सामान्य परिपत्र संख्या 20/2020 दिनांक 5 मई. 2020 और सामान्य परिपन्न संख्या 02 / 2021 दिनांक 13 जनवरी, 2021 और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी अन्य लागू परिपन्न ('एमसीए') (सामुहिक रूप से 'प्रासंगिक परिपत्र' के रूप में संदर्भित) द्वारा व्यापार के लेन-देन करने के लिए जारी किये गए हैं, जैसा कि एजीएम नोटिस में वर्णित है। एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट 2020–21 की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां सदस्यों

www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध होंगे। 3. सदस्यों से अनुरोध है कि एजीएम की सूचना में दिए गए सभी टिप्पणियों और विशेष रूप से एजीएम में शामिल होने के निर्देश, रिमोटई-वोटिंग के माध्यम से वोट डालने के तरीके को ध्यान से पढ़ लें।

को भेजी जाएंगी। साथ ही ये दस्तावेज सीडीएसएल की वेबसाइट

एस्कॉर्ट्स डीलर्स डेवलपगेंट एसोसिएशन लिमिटेड CIN: U51909HR1901PLC008636 पंजीकरण कार्यालयः

एस्कॉर्ट्स डीलर्स डेवलपर्मेट एसोसिएशन लिमिटेड 18/4, मधुरा रोड, फरीदाबाद, एसडी / -हरियाणा - 121 007 शेन् अग्रवाल फोनः 0129-2225216 दिनांकः 06/09/2021 ई-मेल: statutoryfiling@escorts.co.in स्थानः फरीदाबाद

SPA CAPITAL SERVICES LIMITED Regd. Office: 25, C-Block, Community Centre, Janakpuri, New Delhi - 110058

Phone: 011- 4567 5500, E-mail: listing@spacapital.com Website: http://www.spacapital.com/CapitalServices/, CIN - L65910DL1984PLC018749 NOTICE OF 37™ ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND E-VOTING

NOTICE is hereby given that 37" Annual General Meeting ("AGM") of the Members of SPA Capital Services Limited (the "Company") is scheduled to be held on Thursday, September 30, 2021 at 10:00 A.M. at 25, C - Block, Community Centre, Janakpuri, New Delhi - 110058 to transact the

business as set out in the Notice convening said AGM. The Company has on 6" September, 2021 completed the dispatch of Annual Report containing notice of the AGM along with the Audited Financial Statements(Standalone and Consolidated basis) for the financial year ended March 31st ,2021 and the Reports of the Auditor and Directors, to the Members, whose names have appeared in the Register of Members for those holding in physical mode and as downloaded from NSDL/CDSL for those holding in dematerialized mode, through permitted mode. AGM notice and Annual Report sent through permitted mode have been displayed on the Company's website http://www.spacapital.com/CapitalServices/ and shall also be available for inspection by Members at the registered office of the Company on all working days, except Sundays and public holidays, between 11a.m. to 1 p.m. up to the date of AGM.

(B) Book Closure: Notice is also further given that pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with rule 10 of Companies (Management & Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of SEBI (Listing Obligation Disclosure Requirements) Regulation 2015, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Friday, September 24, 2021 to Thursday, September 30, 2021 (both days inclusive) for the purpose of AGM of the Company to be held on

Thursday, September 30, 2021.

(C) E-voting In compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirement) Regulations, 2015, the Members are provided with the facility to cast their vote electronically, from a place other than the venue of the AGM (remote e-voting)on all resolutions set forth in the notice, for which the Company has engaged the services of CDSL as e-voting agency. Further, the facility for voting through ballot paper shall be available at the AGM. The Members who have already cast their vote through remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote at the AGM. The remote e-voting period commences on Monday, September 27, 2021 at 9.00 a.m. (IST) and ends on Wednesday, September 29, 2021 at 5.00 p.m. (IST). During the period, Members of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date on Friday, September 24, 2021 may cast their vote electronically. The Members may note that remote e-voting shall not be allowed beyond 5:00 p.m. (IST) on Wednesday, September 29, 2021. In case of any grievance in respect of e-voting, Members may refer to the Help and 'Frequently Asked Questions (FAQs) for Members' and 'e-voting user manual' available at www.evotingindia.co.in under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact company at email; listing@spacapital.com for any other clarifications.

The results of e-voting shall be announced on or after the AGM of the Company with in prescribed time and will be made available on the website of the Company/RTA/Exchange

> For SPA Capital Services Limited Sandeep Parwal Chairman Cum Managing Director DIN 00025803

Place: New Delhi Date: 06-09-2021

स्टेलर कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड CIN: L74899HR1994PLC076773

पंजीकृत कार्यालयः ४०२, ४ फ्लोर सॉलिटेयर प्लाजा, एम.जी. रोड, गुडगांव, हरियाणा—122002

वेबसाइटः www.stellarcapital.in ईमेल आईडीः stellarcapital@yahoo.in बुक्रवार, 30 सितम्बर, 2021 को दोपहर 02:00 बजे होने वासी 27वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना

एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") के लागू प्रावधानों

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी परिपर्त्रों दिनांक 8 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020, 5 मई, 2020 और 13 जनवरी, 2021 ("एमसीए परिपन्न") और भारतीय प्रतिभृति एवं विनिभय बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी किये गये परिपत्र दिनांक 12 मई, 2020 और 15 जनवरी, 2021 के अनुसरण में 31 मार्च, 2021 को कंपनी के पंजीकृत कार्यालय (बैठक का माना स्थल) में समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक रिपोर्ट के साथ इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप द्वारा सदस्यों को मेजी गई सूचना में निर्धारित व्यवसाय के निष्पादन के लिए कंपनी की 27वीं वार्षिक आम बैठक ('एजीएम') गुरूवार, 30 सितम्बर, 2021 को दोपहर 2:00 बजे विडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) या अन्य ऑडियो विडियो माध्यमों (ओएवीएम) के द्वारा

सभी सदस्यों को सुचित किया जाता है कि: एजीएम सूचना में निर्धारित सामान्य एवं विशेष कार्यवाही इलेक्ट्रॉनिक माध्यामों से मतदान द्वारा

रिगोट ई-मतदान 27 सितम्बर, 2021 को (प्रात: 9:00 बजे) प्रारंग होगी और 29 सितम्बर,

2021 को (सायं 5:00 बजे) समाप्त हो जाएगी। मतदान हेत् कट-ऑफ तिथि 23 सितम्बर, 2021 है।

एजीएम सूचना भेजे जाने के बाद जो व्यक्ति कंपनी का शेयर प्राप्त करता है या सदस्य बनता है तथा कट-ऑफ तिथि यानी 23 सितम्बर, 2021 के अनुसार शेयरधारक है वह helpdesk.evoling@odslindia.com या आरटीए, स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। इसबीच, यदि कोई व्यक्ति ई-मतदान हेतु सीडीएसएल के साथ पहले ही पंजीकृत है तब वह अपने वर्तमान यूजर आईडी एवं पासवर्ड का उपयोग मतदान करने हेत् कर सकता है। सदस्य ध्यान दें किः

क) ई-वोटिंग के लिए उपरोक्त कथित तिथि एवं समय के बाद सीडीएसएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मोंड्यूल इटा लिया जाएगा और सदस्य द्वारा एक बार प्रस्ताव पर वोट देने के बाद बाद में उसे बदलने की अनुमति नहीं होगी;

कराई जाएगी; और ग) रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट दे चुका सदस्य भी सामान्य बैठक में

ख) एजीएम के दौरान हाथ दिखाकर या पंजीकृत मेल आईडी द्वारा मतदान की सक्या उपलब्ध

वीसी/ओएवीएम के माध्यम से भाग ले सकता है लेकिन उसे एजीएम के दौरान फिर से वोट करने की अनुमति नहीं होगी; और घ) ऐसा व्यक्ति जिसका नाम कट-ऑफ तिथि को सदस्यों के रजिस्टर या डिपॉजिटरीज द्वारा

तैयार किये गये लामार्थी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज होगा, केवल वहीं रिमोट ई-वोटिंग या एजीएम के दौरान हाथ दिखाकर या पंजीकत मेल आईडी द्वारा वोट देने की सविधा

परिपत्रों के अनुपालन में, एजीएम की सचना और वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां उन सभी सदस्यों को भेज दी गई हैं जिनके ई-भेल आईडी स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, रजिस्टार एवं शेयर टांसफर एजेंट के पास पंजीकृत हैं। सचना कंपनी की वेबसाइट www.stellarcapital.in और सीढीएसएल की वेबसाइट www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध है।

ई-वोटिंग से जुड़ी किसी भी पूछताछ या शिकायत के लिए आप www.evotingindia.com पर उपलब्ध अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न ("एफएक्यू") और ई-वोटिंग मैनुअल का अवलोकन

कर सकते हैं या निम्नलिखित से सम्पर्क करें श्री राकेश दालवी, सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड, 25वां तल, ए विंग, मैराथन यूच्रैक्स, एन.एम. जोशी मार्ग, लोअर परेल (ईस्ट), मुम्बई-400013, ई-मेल आईढी: helpdesk.evoting@cdslindla.com सम्पर्क नं. 022-23058738 या कंपनी के कंपनी सचिव ई-मेल: stellarcapital@yahoo.in या सम्पर्क नं. 011-26812222

> कृते स्टेलर कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड हस्ता/-अंजलि सिंह

(कंपनी सचिव)

स्थान : नई दिल्ली

तिथ्वि : 6 सितम्बर, 2021

एएमएस पॉलिमर्स लिमिटेड (पूर्व में, साई मोह ऑटो लिंक्स लिमिटेड) सीआईएन: L34300DL1985PLC020510 पंजीकृत कार्यालय। : सी-582, सरस्वती विहार, पीतमपुरा, दिल्ली -110034 दूरभाष: 011-27017987, फैक्स: 011-27017987

इमेल: polymersams@gmail.com, वेबसाइट: www.amspolymers.com वार्षिक आम बैठक, बुक क्लोजर तथा रिमोट ई-वोटिंग की जानकारी की सूचना एतद्वारा सूचना दी जाती है कि एजीएम की सूचना दिनांक 2 सितम्बर, 2021 में निर्धारित प्रकार्य के लेन-देन के लिए कम्पनी की 36वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) गुरुवार, 30 सितम्बर, 2021 को 9.00 बजे प्रात) कम्पनी के पंजीकत कार्यालय सी-582, सरस्वती विहार, पीतम परा, दिल्ली-110034 पर आयोजित की जायेगी। एजीएम

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 42 तथा कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 एवं उसके तहत निर्मित प्रयोज्य नियमों के अनुसार, एतद्वारा सुचित किया जाता है कि एजीएम के उद्देश्य से सदस्यों के रजिस्टर तथा शेयर अन्तरण पुस्तिकाएं शुक्रवार, 24 सितम्बर, 2021 से गुरुवार, 30 सितम्बर, 2021 तक बंद रहेंगी।

की सूचना तथा वित्त वर्ष 2020-21 की वार्षिक रिपोर्ट सभी सदस्यों के पास 6 सितम्बर, 2021 को अनुमत्य

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 तथा कम्पनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के अनुपालन में कम्पनी एजीएम की सूचना दिनांक 2 सितम्बर, 2021 में उल्लिखित सभी प्रकार्य मदों के लेन-देन हेतू नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) के प्लेटफॉर्म पर रिमोट ई-वोटिंग सिवधा के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सुविधा उपलब्ध कराई है। रिमोट ई-वोटिंग 27 सितम्बर, 2021 को 9.00 बजे प्रातः प्रारम्भ होगी और 29 सितम्बर, 2021 को 5.00 बजे सायं समाप्त हगी। कथित तिथि एवं समय के उपरान्त रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं होगी।

रिमोट ई-वोटिंग के निर्देशों सहित वार्षिक आम बैठक की सूचना कम्पनी की वेबसाइट www.amspoly-

mers.com तथा एजेंसी की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी अपलोड है। गरुवार. 23 सितम्बर. 2021 तक कम्पनी के शेयर धारण करने वाले सदस्य www.evoting.nsdl.com पर एनएसडीएल के रिमोट ई-वोटिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से इलेक्टॉनिक रूप से अथवा आम बैठक में बैलट प्रपत्र के माध्यम से मतदान कर सकते हैं। रिमोट ई-वोटिंग के पश्चात भी सदस्य आम बैठक में भाग ले सकते हैं किन्त वे बैठक में मतदान के पात्र नहीं होंगे। यदि रिमोट ई-वोटिंग के पश्चात मतदान किया गया तो वह अवैध होगा और रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से किया गया मतदान मान्य होगा। सदस्य एजीएम सुचना में मुद्रित ई-वोटिंग से सम्बन्धित निर्देश ध्यानपर्वक पढ लें। यदि रिमोट ई-वोटिंग के सम्बन्ध में किसी सदस्य को पछताछ करनी है या कोई मुद्दा है तो वे हेल्प सेक्शन के तहत www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध फ्रीक्वेंटली आस्कड क्वेश्चन्स (एफएक्यू) तथा रिमोट ई-वोटिंग मैनुअल देखें अथवा evoting@nsdl.co.in पर ई-मेल करें। शेयरधारक रजिस्ट्रार एवं शेयर अन्तरण एजेंट, मैसर्स मास सर्विसेज लिमिटेड, सम्पर्क नं. 011-26387281-83 से या उनके सम्बन्धित डिपॉजिटरी से अपने ई-मेल आईडी के पंजीकरण/अपडेशन तथा अन्य मामलों के लिए

पुनः सदस्यों से निवेदन किया जाता है कि वे अपने ई-मेल आईडी, पैन एवं बैंक विवरण आरटीए/कम्पनी के साथ पंजीकृत करा लें। इस सम्बन्ध में आवश्यक सुचना कम्पनी द्वारा पहले ही अलग से सदस्यों के पास भेजी जा चकी है। कृते एएमएस पॉलीमर्स लिमिटेड

स्थान : दिल्ली तिथि : 6 सितम्बर, 2021 चिरंजीवी रामका कम्पनी सचिव

जिंदल पोली इन्वेस्टमेंट ऐण्ड फाइनैंस कम्पनी लिमिटेड सीआईएन : L65923UP2012PLC051433

पंजी. कार्यालय : 19वां के.एम., हापुड़—बुलंदशहर रोड, पी.ओ. मुलावठी, जिला बुलंदशहर (उत्तर प्रदेश) — 203408 प्रधान कार्यालय : प्लॉट नंबर 12, सेक्टर बी—1, लोकल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, वसंत कुंज, नई दिल्ली — 110070 कोनः 011-40322100, ई-मेलः cs\_jpifcl@jindalgroup.com, वेबसाइटः www.jpifcl.com

वार्षिक सामान्य बैठक और बही बंदी की सूचना

एतदद्वारा सूचना दी जाती है कि जिंदल पोली इन्वेस्टमेंट ऐण्ड फाइनैंस कम्पनी लिमिटेड ('कम्पनी') के सदस्यों की 9वीं वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) बुधवार, 29 सितम्बर, 2021 को पूर्वान्ह 11.30 बजे, एजीएम की सूचना में सूचीबद्ध व्यवसाय का निष्पादन करने हेत्, वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग ("वीसी") / अन्य ऑंडियो विजुअल मीन्स ("ओएवीएम") के माध्यम से आयोजित की जाएगी ।

कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रायधानों और तदधीन विरचित नियमों के अनुपालन में एजीएम, जनरल सर्कलर दिनांकित 13 जनवरी, 2021 के साथ पठित जनरल सर्कलर दिनांकित 5 मई, 2020, 8 अप्रैल, 2020 तथा 13 अप्रैल, 2020, तथा समय समय पर जारी अन्य संबद्ध सर्कूलर्स (सामृहिक रूप से "एमसीए सर्कुलर्स" कहे गए हैं) तथा सेबी सर्कुलर दिनांकित 12 मई, 2020 तथा 15 जनवरी, 2021 ('संबी सर्कुलर्स') के दृष्टिगत केवल वीसी / ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जाएगी। एजीएम के लेए प्रतिनिधि की नियुक्ति हेतु सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। एजीएम से इलेक्ट्रॉनिक विधि से जुड़ने वं लिए अनुदेश एजीएम की सूचना में उपलब्ध कराए गए हैं।

एजीएम की सूचना, वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु वार्षिक रिपोर्ट सहित केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा उन सदस्यों को भेजी जा रही है, जिनका ई-मेल पता कम्पनी अथवा सीडीएसएल / एनएसडीएल ('डिपॉजिटरीज') के पास पंजीबद्ध है तथा कम्पनी की वेबसाइट www.ipifcl.com और स्टॉक

एक्सचेंजेज की वेबसाइट www.bseindia.com तथा www.nseindia.com पर भी उपलब्ध होगी। जिन सदस्यों ने अभी तक अपने ई—मेल पते पंजीकृत नहीं किये हैं, वे अपना ईमेल पता और मोबाइल नंबर कंपनी के रजिस्टार और शेयर टांसफर एजेन्ट, कैफिनटेक टेक्नोलाजीज प्राइवेट लिमिटेड को (केफिन) के साथ एजीएम की सचना की सचना तरीके से पंजीकत करवा सकते हैं।

कम्पनी ने एजीएम इलेक्ट्रॉनिक विधि से संचालित करने और ई-वोटिंग सुविधा उपलब्ध कराने के लिए केफिन की सेवाएं अधिकृत एजेन्सी के तौर पर अनुबंधित की हैं। रिमोट ई-वोटिंग अवधि रविवार, 26 सितम्बर, 2021 को पूर्वा. 9.00 बजे से आरंभ होगी तथा मंगलवार, 28 सितम्बर, 2021 को अप. 5.00 बजे समाप्त होगी। इस अवधि के दौरान, कम्पनी के भौतिक या अभौतिक रूप में ग्राह्म शेयरधारक अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक विधि से डाल सकते हैं। तद्परांत केफिन द्वारा ई-वोटिंग मॉडयूल निष्क्रिय कर दिया जाएगा अर्थात 28 सितम्बर, 2021 को अप. 5.00 बजे के बाद ई-वोटिंग की अनुमति नहीं होगी ई–वोटिंग की सविधा एजीएम के दौरान भी उन सदस्यों को उपलब्ध कराई जाएगी, जो एजीएम मे उपस्थित हैं तथा जिन्होंने रिमोट ई–वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं डाला है। ऐसे सदस्य, जो एजीएम से पहले रिमोट ई—वोटिंग द्वारा अपना वोट डाल चुके हैं, वे भी वीसी / ओएवीएम में एजीएम में उपस्थित हो सकते हैं /भाग ले सकते हैं. परंत अपना वोट दोबारा डालने के हकदार नहीं होंगे ।

रिमोट ई–वोटिंग तथा एजीएम में ई–वोटिंग के माध्यम से वोट डालने के लिए सदस्यों की ग्राह्मता निर्धारण हेतु कट-ऑफ तिथि बुधवार, 22 सितम्बर, 2021 है। कोई व्यक्ति, जो सूचना के प्रेषण के उपरांत कम्पनी का सदस्य बनता है और कट–ऑफ तिथि को शेयरों का घारक है, evoting@Kfintech.com को अनुरोध भेज कर अथवा फोन : 1800-3454-001 पर सम्पर्क कर अपना वोट डालने के लिए लॉगइन आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। एजीएम की सूचना में लॉगइन आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त करने तथा ई–वोटिंग का उपयोग करने हेत् विस्तृत प्रक्रिया वर्णित की गई

एतदद्वारा यह भी सूचना दी जाती है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के साथ पठित लागू नियमों और भारतीय प्रतिभृति एवं विनिमय बोर्ड (सुचीयन दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली के विनियम 42 के अनुसरण में, कम्पनी के सदस्यों का रजिस्टर तथा शेयर अंतरण बहियां शनिवार, 25 सितम्बर, 2021 से बुधवार, 29 सितम्बर, 2021 तक, दोनों तिथियों सहित, एजीएम के प्रयोजन हेत बंद रहेंगी।

वीसी / ओएवीएम भागीदारी के लिए ई-वोटिंग या तकनीकी सहायता के संबंध में किसी भी प्रश्न के मामले में, सदस्य टोल फी नं. 1800-3454-001 कैंफिनटेक टेक्नोलाजीज प्राइवेट लिमिटेड से सम्पर्क कर सकते है या einward.ris@kfintech.com और evoting@Kfintech.com पर लिख सकते है।

निदेशक मंडल के आदेश द्वार वास्ते जिंदल पोली इन्वेस्टमेंट ऐण्ड फाइनैंस कम्पनी लिमिटेड

साक्षी मेंदीरत्त स्थान : नई दिल्ली

तिथि : 6 सितम्बर, 2021 कम्पनी सचिव और अनुपालन अधिकारी

#### कंसोलिडेटेड फिनवेस्ट एंड होल्डिंग्स लिमिटेड सीआईएन : L33200UP1993PLC015474 गंजी. कार्यालय : 19वां के.एम., हापूड-बुलंदशहर रोड, पी.ओ. गुलावठी, जिला बुलंदशहर (उत्तर प्रदेश) – 203408

प्रधान कार्यालय : प्लॉट नंबर 12, सेक्टर बी-1, लोकल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, वसंत कुंज, नई दिल्ली - 110070 फोनः 011—40322100, ई—मेलः cs\_cfhl@jindalgroup.com, वेबसाइटः www.consofinvest.com

35वीं वार्षिक सामान्य बैठक और बही बंदी की सूचना

रतदद्वारा सचना दी जाती है कि कंसोलिडेटेड फिनवेस्ट एंड होल्डिंग्स लिमिटेड ("कम्पनी") के सदस्यों की 35वीं वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) बुधवार, 29 सितम्बर, 2021 को अपरान्ह 2.30 बजे, एजीएम की सूचना में सूचीबद्ध व्यवसाय का निष्पादन ई–वोटिंग सुविधा के माध्यम से करने हेतु, वीडियो

कॉन्फ्रेन्सिंग ('वीसी')/अन्य ऑडियो विजुअल मीन्स ('ऑएवीएम') के माध्यम से आयोजित की कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और तदधीन विरचित नियमों के अनुपालन में एजीएम, जनरल सर्कुलर दिनांकित 13 जनवरी, 2021 के साथ पठित जनरल सर्कुलर दिनांकित 5 मई, 2020, 8 अप्रैल, 2020 तथा 13 अप्रैल, 2020, तथा समय समय पर जारी अन्य संबद्ध सर्कुलर्स (सामृहिक रूप से एमसीए सर्कुलर्स" कहे गए हैं) तथा सेबी सर्कुलर दिनांकित 12 मई, 2020 तथा 15 जनवरी, 2021

("सेबी सर्कुलर्स") के दृष्टिगत केवल वीसी / ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जाएगी। एजीएम के लिए परोक्षी की नियुक्ति हेतु सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। एजीएम से इलेक्ट्रॉनिक विधि से जुड़ने के लिए अनुदेश एजीएम की सूचना में उपलब्ध कराए गए हैं। एजीएम की सूचना, वित्तीय वर्ष 2020–21 हेतु वार्षिक रिपोर्ट सहित केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा उन सदरयों को भेजी जा रही है, जिनका ई–मेल पता कम्पनी अथवा सीडीएसएल / एनएसडीएल

('डिपॉजिटरीज') के पास पंजीबद्ध है तथा कम्पनी की वेबसाइट www.consofinvest.com और स्टॉक एक्सचेंजेज की वेबसाइट www.nseindia.com पर भी उपलब्ध होगी।

जिन सदस्यों ने अपना ई–मेल पता पंजीकृत नहीं करवाया है और परिणामत: एजीएम की सूचना तथा ई-वोटिंग अनुदेशों सहित वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त नहीं कर सके हैं, वे एजीएम की सूचना और ई-वोटिंग अनुदेश प्राप्त करने के लिए कम्पनी के रजिस्ट्रार ऐंड शेयर ट्रांसफर एजेन्ट, लिंकइनटाइम इंडिया ाइवेट लिमिटेड को एक ई-मेल अनुरोध delhi@linkintime.co.in अथवा cs\_cfhl@jindalgroup.com प अनुरोध पत्र की हस्ताक्षरित प्रति की स्कैन प्रति के साथ ई-मेल पता, मोबाइल नंबर, पैन की स्व-सत्यापित प्रति तथा इलेक्ट्रॉनिक फोलियो के मामले में क्लाइंट मास्टर प्रति और भौतिक फोलियो के मामले में शेयर प्रमाणपत्र की कॉपी के साथ भेजकर ईं–मेल पता और मोबाइल नंबर पंजीकत करवा

कम्पनी ने एजीएम इलेक्टॉनिक विधि से संचालित करने और ई-वोटिंग सविधा उपलब्ध कराने के लिए लिंकइनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की सेवाएं अधिकृत एजेन्सी के तौर पर अनुबंधित की हैं। रिमोट ई-वोटिंग अवधि रविवार, 26 सितम्बर, 2021 को पूर्वा. 9.00 बजे से आरंग होगी तथा मंगलवार, 28 सितम्बर, 2021 को अप. 5.00 बजे समाप्त होगी। इस अवधि के दौरान, कम्पनी के भौतिक या अभौतिक रूप में ग्राह्म शेयरधारक अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक विधि से डाल सकते हैं। तद्परांत लिंकइनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ई-वोटिंग मॉड्यूल निष्क्रिय कर दिया जाएगा अर्थात 28 सितम्बर, 2021 को अप. 5.00 बजे के बाद ई-वोटिंग की अनुमति नहीं होगी। ई-वोटिंग की सुविधा एजीएम के दौरान भी उन सदस्यों को उपलब्ध कराई जाएगी, जो एजीएम में उपस्थित हैं तथा जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं डाला है। ऐसे सदस्य, जो एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाल चके हैं. वे भी वीसी/ओएवीएम में एजीएम में उपस्थित हो सकते हैं/भाग ले सकते हैं, परंतु अपना वोट दोबारा डालने के हकदार नहीं होंगे।

रिमोट ई-वोटिंग तथा एजीएम में ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डालने के लिए सदस्यों की ग्राह्मता निर्धारण हेत् कट-ऑफ तिथि बुधवार, 22 सितम्बर, 2021 है। कोई व्यक्ति, जो सूचना के प्रेषण के उपरांत कम्पनी का सदस्य बनता है और कट—ऑफ तिथि को शेयरों का धारक है. enotices@linkintime.co.in को अनुरोध भेज कर अथवा फोन : 022-4918 6000 पर सम्पर्क कर अपना वोट डालने के लिए लॉगइन आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। एजीएम की सचना में लॉगइन आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त करने तथा ई-बोटिंग का उपयोग करने हेत् विस्तृत प्रक्रिया वर्णित की गई है।

यदि शेयरधारकों / सदस्यों को ई-वोटिंग के संबंध में कोई संदेह है, तो वे https://instavote.linkintime.co.in पर हेल्प सेक्शन के अंतर्गत उपलब्ध फ्रीक्वेंटली आस्वड क्वेश्चन्स "एफएक्य'ज) तथा इंस्टावोट ई-वोटिंग मैन्अल देखें अथवा enotices@linkintime.co.in पर ई-मेल भेजें अथवा फोन : 022-4918 6000 पर सम्पर्क करें ।

एतदद्वारा यह भी सूचना दी जाती है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के साथ पठित लागू नियमों और भारतीय प्रतिभृति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीयन दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली के विनियम 42 के अनुसरण में, कम्पनी के सदस्यों का रजिस्टर तथा शेयर अंतरण बहियां बहरपतिवार, 23 सितम्बर, 2021 से बधवार, 29 सितम्बर, 2021 तक, दोनों तिथियों सहित, एजीएम के प्रयोजन हेत् बंद रहेंगी। निदेशक मंडल के आदेश द्वारा

> वास्ते कंसोलिडेटेड फिनवेस्ट एंड होल्डिंग्स लिमिटेड अनिल कीशल कम्पनी सचिव

SHASHANK TRADERS LIMITED CIN: - L52110DL1985PLC021076

Regd. Office: 702-A, Arunachal Building, 19, Barakhamba Road, Connaught Place, New Delhi-110001, Tele. No.:- 011- 43571041/42, Fax: - 011- 43571047 Email Id: info@shashankinfo.in; Website: www.shashankinfo.in

Notice is hereby given that the 36th Annual General Meeting ("AGM") of the Company is scheduled to be held on Thursday, September 30, 2021 at 10:30 a.m. at the registered office of the Company at 702-A, Arunachal Building, 19, Barakhamba Road, Connaught Place, New Delhi-110001. Members of the Company are hereby informed that pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 and Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the Company has on September 07, 2021 completed the dispatch of the notice of the Annual General Meeting by providing the facility of electronic voting to its members for seeking consent of Members for the items as stated in the notice of the Annual General Meeting dated September 02, 2021, for members meeting to be held on September 30, 2021 at 10:30 a.m.

. The Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from September 24, 2021 to September 30, 2021 (both days inclusive) for the purpose of this Annual General Meeting.

Members can vote through electronic means. The Voting will commence on September 27, 2021 at 9.00 a.m. and ends on September 29, 2021 at 5.00 p.m. Members attending the meeting who have not already cast their vote by remote e voting shall be able to exercise their right at the Annual General Meeting by poll.

. The members who have acquired the shares after the dispatch of the Notice shall be eligible for voting through electronic mode by obtaining login Id and password after logging on www.evotingindia.com. The notice is also available on the website of the Company at www.shashankinfo.in

. The remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time as mentioned

A member may participate in the general meeting even after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again in the meeting.

Members whose name is recorded in the Register of Members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date (i.e. September 23, 2021) only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting in the Annual General Meeting.

The Notice of Annual General Meeting will be available on www.shashankinfo.in and on the portal of the exchange where the securities are listed. If any members require physical copy of the notice can send a requisition on the registered office address of the Company situated 702-A, Arunachal Building, 19, Barakhamba Road, Connaught Place, New Delhi-110001. Mr. Nipun Jain, Director and Compliance officer of the Company is responsible to

address the grievances connected with facility for voting by electronic means and all the correspondence to that effect shall be addressed at registered office address: 702 -A, Arunachal Building, 19, Barakhamba Road, Connaught Place, New Delhi-110001, e-mail: info@shashankinfo.in contact no: 011-43571041/42. For and on behalf of Board of Directors of

Date:-September 07, 2021 Place:- New Delhi

Shahank Traders Limited Nipun Jain Director DIN:- 05289775 Place: Delhi

Date: 06/09/2021

**CAPFIN INDIA LIMITED** Registered & Corporate Office: 1C/13, Basement, Rajnigandha Building, New Rohtak Road, Delhi - 110005 CIN: L74999DL1992PLC048032; Phone No: 011-28762142

e-mail address: capfinindialtd@yahoo.co.in; Website: www.capfin INTIMATION REGARDING COMPLETION OF DISPATCH OF NOTICE OF 2914 ANNUAL GENERAL Notice is hereby given that the 29" Annual General Meeting ("AGM") of the Members of Capfir

India Limited will be held on Thursday, September 30, 2021 at 5:00 p.m. through Video Conferencing ("VC") or Other Audio Visual Means ("OAVM") to transact the ordinary and special businesses as stated in the Notice convening the AGM. As per the various Circular issued by MCA and SEBI, the Notice of the AGM together with the Annual Report of the Company for the Financial Year 2020-21 has been sent to the Members of the Company by e-mail to their registered e-mail addresses. The Company has completed the mailing of Notice convening the AGM along with the aforesaid Annual Report on September 6, 2021. The Members, who have not registered their e-mail addresses so far, are requested to registe

their e-mail addresses with their concerned Depository Participant (in respect of shares held in demat form) or with Indus Portfolio Private Limited, Registrar & Share Transfer Agent (RTA) of the Company (in respect of shares held in physical form).

Members are hereby informed that the notice of the 29° AGM and the Annual Report of the Company are also available on the Company's website (www.capfinindia.com). Notice of AGM is also available on the e-voting website of National Securities Depository Limited (NSDL) at Members are also informed that pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013("the Act" read with the relevant rules made thereunder, as amended from time to time, along with

Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations") and the aforesaid Circulars, the Company is providing remote e-voting (prior to the AGM) and e-voting during AGM to its members to cast their votes electronically or the resolutions to be passed at the 29° AGM. The Members are further informed that the cut-of date for the purpose of ascertaining the members eligible for e-voting facility has been fixed as Thursday, September 23, 2021. A person, whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be ntitled to avail the facility of remote e-voting as well as e-voting during AGM. The Members are requested to note that remote e-voting process shall commence on Monday eptember 27, 2021 at 9:00 a.m. and will remain open upto Wednesday, September 29, 2021 ti

5:00 p.m. Thereafter, the remote e-voting module shall be disabled by NSDL. Once the vote on resolution is cast by a Member, he / she / it shall not be allowed to change it subsequently. Th Members who have not cast their vote through remote e-voting can exercise their voting rights electronically during AGM. The Members who have cast their votes by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM, but shall not be entitled to cast their vote again during AGM The Company has appointed Mr. Deepanshu Bansal (Membership No. 526717, Practicing Chartered Accountant, as the scrutinizer to scrutinize the e-voting process in a fair and transparent

The detailed procedure/instructions for remote e-voting, attending AGM and e-voting during AGM are contained in the Notice of 29" AGM.

The remote e-voting facility is available to the Members to cast their votes at the e-voting websit of NSDL: www.evoting.nsdl.com or the Member may refer Frequently Asked Questions (FAQs) fo Shareholders and e-voting user manual for Shareholders, available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800 1020 990 and 1800 22 44 30 or send a request Any query or grievance in relation to e-voting may be addressed to Ms. Swapnil Agarwal

Compliance Officer, e-mail address: info@nivis.co.in, Address: 3 Shankar Vihar, 2" Floor, Vika: Marg, Delhi 110092, Contact No.: 011-45201005.

Any person who becomes a Member after sending the Notice and Annual Report through e-mai but who holds shares as on cut-off date can attend the AGM through VC / OAVM. Such Member can exercise his voting right through remote e-voting or e-voting during AGM and send a requisition for a copy of the Annual Report and Notice convening the AGM through e-mai communication to RTA at ippl@indusinvest.com with a copy marked to the Company a capfinindialtd@yahoo.co.in, along with his / her / its relevant particulars i.e. DP ID & Client ID. folio No. to obtain User Id and Password for e-voting. If shareholder is individual shareholder and hold shares in demat mode he/she can generate password as explain in e-voting instruction. Since the 29" AGM will be held pursuant to the aforesaid Circulars through VC / OAVM, physica attendance of Members has been dispensed with. Accordingly, the facility for appointment of

proxies by the Members will not be available Notice is also hereby given that pursuant to the provisions of Section 91 of the Act and Regulation 42 of the Listing Regulations, the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from Friday, September 24, 2021 to Thursday, September 30, 2021 (both days inclusive) for the purpose of 29° AGM.

By order of the Board of Directors For Capfin India Limited

Date: September 7, 2021

(Rachita Mantry Kabra) Whole Time Directo DIN: 0341439

सितम्बर 07, 2021

दिल्ली

जिंदल फोटो लिमिटेड सीआईएन : L33209UP2004PLC095076 पंजी. कार्यालय : 19वां के.एम., हापुड़—बुलंदशहर रोड, पी.जो. गुलावठी, जिला बुलंदशहर (उत्तर प्रदेश) – 203408 प्रधान कार्यालय : प्लॉट नंबर 12, रोक्टर बी-1, लोकल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, वसंत कुंज, नई दिल्ली - 110070

वार्षिक सामान्य बैठक और बही बंदी की सूचना

एतदहारा सूचना दी जाती है कि जिंदल फोटों लिमिटेड ("कम्पनी") के सदस्यों की 18वीं वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) बुधवार, 29 सितम्बर, 2021 को दोपहर 12:30 बजे, एजीएम की सुचना मे सूचीबद्ध व्यवसाय का निष्पादन ई-वोटिंग सुविधा के मध्यम से करने हेत्, वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग ("वीसी") / अन्य ऑडियो विज्ञल मीन्स ("ओएवीएम") के माध्यम से आयोजित की जाएगी ।

फोनः 011—40322100, ई-मेलः cs\_jphoto@jindalgroup.com, वेबसाइटः www.jindalphoto.com

कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और तदधीन विरचित नियमों के अनुपालन में एजीएम, जनरल सर्कुलर दिनांकित 13 जनवरी, 2021 के साथ पठित जनरल सर्कुलर दिनांकित 5 मई, 2020, 8 अप्रैल, 2020 तथा 13 अप्रैल, 2020, तथा समय समय पर जारी अन्य संबद्ध सर्कुलर्स (सामूहिक रूप से एमसीए सर्कुलर्स" कहे गए हैं) तथा सेबी सर्कुलर दिनांकित 12 मई, 2020 तथा 15 जनवरी, 2021 ("सेबी सर्कुलर्स") के दृष्टिगत केंवल वीसी / ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जाएगी। एजीएम के लिए परोक्षी की नियुक्ति हेत् सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। एजीएम से इलेक्ट्रॉनिक विधि से जुड़ने के लिए अनुदेश एजीएम की सूचना में उपलब्ध कराए गए हैं।

एजीएम की सूचना, वित्तीय वर्ष 2020-21 हेत् वार्षिक रिपोर्ट सहित केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा उन सदस्यों को भेजी जा रही है, जिनका ई-मेल पता कम्पनी अथवा सीडीएसएल/एनएसडीएल ('डिपॉजिटरीज') के पास पंजीबद्ध है तथा कम्पनी की वेबसाइट www.jindalphoto.com और स्टॉक एक्सचेंजेज की वेबसाइट www.bseindia.com तथा www.nseindia.com पर भी उपलब्ध होगी।

जिन सदस्यों ने अपना ई-मेल पता पंजीकृत नहीं करवाया है और परिणामतः एजीएम की सूचना तथा ई-वोटिंग अनुदेशों सहित वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त नहीं कर सके हैं, वे एजीएम की सूचना और ई-वोटिंग अनुदेश प्राप्त करने के लिए कम्पनी के रजिस्ट्रार ऐंड शेयर ट्रांसफर एजेन्ट, लिंकइनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को एक ई-मेल अनरोध delhi@linkintime.co.in अथवा cs. iphoto@iindalgroup.com पर अनुरोध पत्र की हस्ताक्षरित प्रति की स्कैन प्रति के साथ ई-मेल पता, मोबाइल नंबर, पैन की स्व-सत्यापित प्रति तथा इलेक्टॉनिक फोलियो के मामले में क्लाइंट मास्टर प्रति और भौतिक फोलियो के मामलें में शेयर प्रमाणपत्र की कॉपी के साथ भेजकर ई-मेल पता और मोबाइल नंबर पंजीकृत करवा सकते हैं।

कम्पनी ने एजीएम इलेक्ट्रॉनिक विधि से संचालित करने और ई-वोटिंग सुविधा उपलब्ध कराने के लिए लिंकइनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की सेवाएं अधिकृत एजेन्सी के तौर पर अनुबंधित की हैं। रिमोट ई-वोटिंग अवधि रविवार, 26 सितम्बर, 2021 को पूर्वा. 9.00 बजे से आरंभ होगी तथा मंगलवार, 28 सितम्बर, 2021 को अप. 5.00 बजे समाप्त होगी। इस अवधि के दौरान, कम्पनी के भौतिक या अभौतिक रूप में ग्राह्म शेयरधारक अपना बोट इलेक्ट्रॉनिक विधि से खाल सकते हैं। तद्परांत लिंकइनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ई-वोटिंग मॉड्यूल निष्क्रिय कर दिया जाएगा अर्थात 28 सितम्बर, 2021 को अप. 5.00 बजे के बाद ई-वोटिंग की अनुमति नहीं होगी। ई-वोटिंग की सुविधा एजीएम के दौरान भी उन सदस्यों को उपलब्ध कराई जाएगी, जो एजीएम में उपस्थित हैं तथा जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग ह्वारा अपना वोट नहीं डाला है। ऐसे सदस्य, जो एजीएम से पहले रिमोट ई–वोटिंग ह्वारा अपना वोट डाल चुके हैं, वे भी वीसी/ओएवीएम में एजीएम में उपस्थित हो सकते हैं/भाग लें सकते हैं, परंत् अपना वोट दोबारा डालने के हकदार नहीं होंगे। रिमोट ई-वोटिंग तथा एजीएम में ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डालने के लिए सदस्यों की ग्राह्मता

निर्धारण हेत् कट--ऑफ तिथि बधवार, 22 सितम्बर, 2021 है। कोई व्यक्ति, जो सूचना के प्रेषण के उपरांत कम्पनी का सदस्य बनता है और कट-ऑफ तिथि को शेयरों का धारक है, enotices@linkintime.co.in को अनुरोध मेज कर अथवा फोन : 022-4918 6000 पर सम्पर्क कर अपना वोट डालने के लिए लॉगइन आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। एजीएम की सूचना मे लॉगइन आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त करने तथा ई-वोटिंग का उपयोग करने हेत् विस्तृत प्रक्रिया वर्णित की गई है। यदि शेयरधारकों / सदस्यों को ई-वोटिंग के संबंध में कोई संदेह है, तो वे

https://instavote.linkintime.co.in पर हेल्प सेक्शन के अंतर्गत उपलब्ध फ्रीक्वेंटली आरक्ड क्वेश्चन्स ("एफएक्यू'ज) तथा इंस्टावोट ई-वोटिंग मैनुअल देखें अथवा enotices@linkintime.co.in पर ई-मेल भेजें अथवा फोन : 022-4918 6000 पर सम्पर्क करें। एतदद्वारा यह भी सुचना दी जाती है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की घारा 91 के साथ पठित लाग्

नियमों और भारतीय प्रतिभृति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीयन दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली के विनियम 42 के अनुसरण में, कम्पनी के सदस्यों का रजिस्टर तथा शेयर अंतरण बहियां बृहस्पतिवार, 23 सितम्बर, 2021 से बुधवार, 29 सितम्बर, 2021 तक, दोनों तिथियों सहित, एजीएम के प्रयोजन हेत बंद रहेंगी। निदेशक गंडल के आदेश द्वारा

स्थान : नई दिल्ली

तिथि : 6 सितम्बर, 2021

वास्ते जिंदल फोटो लिमिटेड

अशोक यादव कम्पनी सचिव

दिनांक: 06 सितंबर, 2021

स्थान: नई दिल्ली

GLEAM FABMAT LIMITED CIN: L28999DL2018PLC335610

R/o: 5504/15, G/F, Basti Harpool Singh, Sadar Bazar, North Delhi - 110006 E-Mail: gleam.fml@gmail.com, Mobile no: 9311305197 NOTICE OF 03<sup>10</sup> ANNUAL GENERAL MEETING REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that the 03rd Annual General Meeting (AGM) of the members of Gleam Fabmat Limited (Company) will be held on Wednesday, 29' day of September, 2021 at 12:30 P.M. at 145, Gali No.-6 Siraspur, Delhi-110042, to transact the businesses as set out in the Notice of AGM in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 (Act) and Rules framed thereunder read with General Circular issued from time to time, respectively

financial year ended March 31, 2021 of the Company shall be sent to all the members, whose email ids are registered with the Company/RTA/Depository participant(s), as on the cut-off date i.e., 03" September, 2021. Please note that the requirement of sending physical copy of the Notice of the 03" AGM and Annual Report to the Members have been dispensed with vide MCA Circulars. The Notice and the Annual Report will also be available and can be downloaded from the website of the Company <u>http://www.gfl.org.in</u>.

Central Depository Services (India) Limited (CDSL) and the detailed procedure for the same is provided in the Notice of the AGM. The remote e-voting period commences on 26th September, 2021 (09:00 A.M.) and end on 28th September, 2021 (05:00 P.M). During this period, members of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date of 22" September, 2021, may cast their vote by remote e-voting or by e-voting at the time of AGM.

registered with the Company, are requested to register their e-mail addresses at the earliest by sending scanned copy of a duly signed letter by the Member(s) mentioning their name, complete address, folio number, number of shares held with the Company along with self-attested scanned copy of the PAN Card and self-attested scanned copy of any one of the following documents viz., Aadhar Card, Driving License, Election Card, Passport, utility bill or any other Govt. document in support of the address proof of the Member as registered with the Company. Members holding shares in demat form can update their email address with their Depository Participants. In case of any queries/ difficulties in registering the email address, members may write to the Company's RTA email

The members who are holding shares in physical form or who have not registered their email address with the Company may contact RTA, CDSL or the Company and update their email and other details as required in point no. 4 above.

The Register of Members and Share Transfer books of the Company will remain closed from Wednesday, 22<sup>nd</sup> September, 2021 to Wednesday, 29<sup>th</sup> September

2021 (both days inclusive) The Notice of AGM and Annual Report for the financial year 2020-2021 will be

For Gleam Fabmat Limited

Arjun Dhingra

इंडिया एक्सपोसिशन मार्ट लिमिटेड <sub>सीआईएन: U99999DL2001PLC110396</sub> मयूर विहार फेज-I, दिल्ली- 110091, टेलीफोन : +91-120-2328011-20 फैक्स: +91-120-2328010 ईमेल आईडी : cs@indiaexpocentre.com, वेबसाइट : www.indiaexpomart.com 20वीं वार्षिक आम बैठक की नोटिस और ई-वोटिंग की सचना

सूचित किया जाता है कि कंपनी की 20वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) दिनांक 29 सितम्बर 2021 दिन ब्धवार को सुबह 11:30 बजे गवर्नमेंट सर्वेंट को-ऑपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी लिमिटेड, कल्याण केंद्र, 9, पश्चिम मार्ग, वसंत विहार, नई दिल्ली - 110057 में आयोजित की जा रही है। इसकी सूचना सभी सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से भी भेजी जा चुकी है।

को भेज दी गई है जिनकी ईमेल आईडी कंपनी के साथ पंजीकृत है। इसकी भौतिक प्रतियां स्वीकृत रूप में अन्य सभी सदस्यों के पंजीकृत पते पर भेज दी गई हैं। यह कंपनी की वेबसाइट www.indiaexpomart.com पर भी उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त, एजीएम की नोटिस नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरीज लिमिटेड ('एनएसडीएल') की वेबसाइट

https://www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है। एजीएम में किए जाने वाले कारोबार से

एजीएम की सुचना के साथ कंपनी की वितीय वर्ष 2020-21 की वार्षिक रिपोर्ट उन सभी सदस्यों

संबंधित दस्तावेज एजीएम की तारीख तक शनिवार, रविवार और छ्ट्टियों को छोड़ कर सभी कार्य दिवसों में दोपहर 12 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में निरीक्षण के लिए उपलब्ध हैं। एजीएम की सूचना प्रेषण का काम,4 सितम्बर 2021को पूरा हो चुका है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के नियमों के साथ पठित, यथा संशोधित, कंपनी सदस्यों को सभी प्रस्तावों पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम (रिमोट ई-वोटिंग) दवारा अपना वोट डालने के लिए रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने की कृपा कर रही है। कंपनी ने ई-वोटिंग की सुविधा उपलब्ध

रिमोट ई-वोटिंग 24 सितम्बर 2021, शुक्रवार को सुबह 10:00 बजे (भारतीय समयानुसार) शुरू होगी और 28 सितम्बर 2021, मंगलवार की शाम 05:00 बजे (भारतीय समयानुसार) खत्म होगी। रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति उक्त समय और तिथि के बाद नहीं दी जाएगी।

कराने के लिए एनएसडीएल की सेवाएं लीं है। कृपया ई-वोटिंग पर निर्देशों के संबंध में एजीएम की

· इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से याँ वार्षिक आम बैठक में मतदान करने के लिए पात्रता का निर्धारण करने के लिए कट ऑफ तारीख 22 सितम्बर 2021, बुधवार है। · जिस व्यक्ति का नाम कट ऑफ तिथि के आधार पर सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज है, अर्थात 22

सितम्बर 2021, ब्धवार बैठक में उपलब्ध रिमोट ई-वोटिंग या वोटिंग स्विधा का लाभ उठाने के लिए हकदार होगा। कोई भी व्यक्ति जिसने इस नोटिस के प्रेषण के बाद कंपनी के शेयरों का अधिग्रहण किया हो या कंपनी का सदस्य बना हो अथवा कट ऑफ तारीख पर शेयर लिया हो, वो फोलियो नंबर का उल्लेख कर evoting@nsdl.co.in या cs@indiaexpocentre.com पर एक अन्रोध भेज

कर लॉगइन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। कंपनी बैठक के दौरान भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली या मतपत्र के माध्यम से उन सदस्यों को मतदान की सुविधा प्रदान करेगी जिन्होंने ई-वोटिंग के माध्यम से अपने मताधिकार का प्रयोग

बैठक से पहले रिमोट ई-वोटिंग के जरिए मतदान कर चुके सदस्य बैठक में भाग ले सकते हैं,

लेकिन पुनर्मतदान के हकदार नहीं होंगे। · किसी भी सवाल के लिए, आप एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट https://www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड खंड पर उपलब्ध 'सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न' (एफएक्यू) और 'ई-वोटिंग से संबंधित प्रश्न' की सहायता ले सकते हैं। किसी भी शिकायत के मामले में, आप सुश्री पल्लवी म्हात्रे, प्रबंधक, एनएसडीएल से टोल फ्री नंबर 1800-1020-990 और 1800-2244-30 पर संपर्क कर सकते हैं; ईमेल: evoting@nsdl.co.in जो

इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान से जुड़ी शिकायतों का समाधान भी करेंगी। मतदान के परिणाम संबंधित नियमों के तहत निर्धारित रूप में घोषित किए जाएंगे और उपरोक्त कंपनी की वेबसाइट और एनएसडीएल की वेबसाइट पर भी पोस्ट किए जाएंगे।

निदेशक मंडल के आदेश से अनुपम शर्मा कंपनी सचिव

SALORA

सलोरा इंटरनेशनल लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय: डी-13/4, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-॥, नई दिल्ली-110 020 सीआईएन: L74899DL1968PLC004962 ईमेल: sect@salora.com, वेबसाइट: www.salora.com

द्ररभाष.: 011-40115817 52वीं वार्षिक आम बैठक, ई-वोटिंग और बुक क्लोजर की सूचना

एतदद्वारा सुचना दी जाती है कि कंपनी के सदस्यों की 52वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम), वीडियो कांफ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो विजअल (VC/OVAM) के माध्यम से सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना सामान्य स्थान पर एजीएम की सूचना में निर्धारित किए जाने वाले व्यवसाय को लेन-देन करने के लिए बुधवार, 29 सितंबर, 2021 को पूर्वाह्न 11.00 आयोजित की जाएगी। कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी परिपत्रों के अनुसार अर्थात परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांक 08 अप्रैल, 2020, परिपत्र संख्या 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020 के बाद परिपत्र संख्या 20/2020 दिनांक 05 मई, 2020 और परिपत्र सं.02/2021 दिनांक 13 जनवरी, 2021 और भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड द्वारा जारी परिपत्र और समय-समय पर जारी अन्य सभी प्रासंगिक परिपत्रों के अनुपालन में कंपनी की 52वीं वार्षिक रिपोर्ट, एजीएम आयोजन की सूचना के साथ 6 सितंबर, 2021 को इलेक्टॉनिक मोड के माध्यम से उन सभी सदस्यों को भेज दी गई है, जिनके ईमेल आईडी आरटीए/कंपनी/डिपॉजिटरी में पंजीकृत हैं। 52वीं एजीएम की सूचना और वित्तीय वर्ष 2020-21 की वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की **वेबसाइट <u>www.salora.com</u> और** NSDL की वेबसाइट यानी <u>www.evoting.nsdl.com</u> **पर भी** 

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधान के अनुसार, कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के साथ पठित, सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ। विनियम, 2015 के नियम 44 के रूप में संशोधित के अनुपालन में कंपनी सदस्यों को एनएसडीएल द्वारा प्रदान की गई इलेक्टॉनिक प्रणाली का उपयोग करते हुए एजीएम बलाने की सचना में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर इलेक्टॉनिक माध्यम से वोट डालने (एजीएम के दिन रिमोट ई-वोटिंग के साथ-साथ ई-वोटिंग) की सुविधा प्रदान करने में सन्तुष्ट है। जिन सदस्यों के नाम कट-ऑफ तारीख यानी बुधवार 22 सितंबर, 2021 को सदस्यों के रजिस्टर या डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए लाभार्थी मालिकों के रजिस्टर में दर्ज हैं, वे ई-वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने के हकदार होंगे।

रिमोट ई-वोटिंग की अवधि रविवार 26 सितंबर, 2021 (सुबह 9.00 बजे) से शुरू होगी और मंगलवार 28 सितंबर, 2021 (शाम 5.00 बजे) को समाप्त होगी। इस अवधि के दौरान सदस्य इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं। इसके बाद मतदान के लिए एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ई-वोटिंग की सुविधा एजीएम में भी उपलब्ध कराई जाएगी और वें सदस्य, जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से प्रस्तावों पर अपना वोट नहीं डाला था, एजीएम के दौरान ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से वोट देने के पात्र होंगे।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 और सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं। विनियम, 2015 के नियम 42 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी की 52वीं वार्षिक आम बैठक के प्रयोजन के लिए सदस्यों का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर बुक्स 23 सितंबर, 2021 से 29 सितंबर, 2021 तक (दोनों दिन सम्मिलित) बंद रहेंगे।

रिमोट ई-वोटिंग और वार्षिक आम बैठक में शामिल होने के लिए सदस्यों के निर्देश कंपनी की वेबसाइट www.salora.com पर उपलब्ध एजीएम की सूचना में दिए गए हैं। कोई भी व्यक्ति. जो कंपनी के शेयरों का अधिग्रहण करता है और कंपनी द्वारा इलेक्टॉनिक रूप से नोटिस भेजे जाने के बाद कंपनी का शेयरधारक बन जाता है और कट-ऑफ तिथि के अनुसार शेयर रखता है; evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजकर लॉग-इन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि, यदि वह रिमोट ई-वोर्टिंग के लिए एनएसडीएल के साथ पहले से पंजीकृत है, तो वह वोट डालने के लिए अपनी मौजुदा युजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकता है।

किसी भी प्रश्न के मामले में, आप www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुभाग पर उपलब्ध शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग उपयोगकर्ता पस्तिका देख सकते हैं या टोल फ्री नंबर: 1800 1020 990 और 1800 22 44 30 पर कॉल कर सकते हैं या evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजें या सुश्री पल्लवी म्हात्रे, प्रबंधक या सुश्री सोनी सिंह, सहायक प्रबंधक, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड निर्दिष्ट ईमेल आईडी evoting@nsdl.co.in या pallavid@nsdl.co.in या SonyS@nsdl.co.in पर या टेलीफोन नंबर पर:- +91 22 24994545, +91 22 24994559 से संपर्क करें, जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान से जुड़ी शिकायतों का समाधान भी करेंगे।

सलोरा इंटरनेशनल लिमिटेड के लिए

(अनुभव निगम) कंपनी सचिव & अनुपालन अधिकारी

सदस्य संख्या A59262

www.readwhere.com

त्थानः गुडगांव

तिथिः 06 सितम्बर, 2021

- circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars").
- Electronic copies of the Notice of the AGM and the Annual Report for the
- The facility of casting the votes by the members ("e-voting") will be provided by
- Members, who are holding shares in physical and their e-mail addresses are not

ID, viz, ipo@bigshareonline.com.

sent to members in accordance with the applicable provisions in due course.

Company Secretary and Compliance Officer